

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2

संख्या: /VII-A-2/2020-08(सिडकुल)/2020

देहरादून :दिनांक 28 मई, 2020

कार्यालय आदेश

एतद्वारा भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में "उत्तराखण्ड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति, 2020 में निहित कार्य उद्देश्यों एवं संस्थानों के उच्च स्तर के विनिर्माण आदि कार्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से Coordinator (Defence Manufacturing) का एक अस्थाई पद वेतनमान रू0 1,23,100-2,15,900 वेतन लेवल-13 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28.02.2021 तक अथवा नियमित व्यवस्था सुनिश्चित होने तक, जो भी पहले हो, बशर्ते उक्त पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, तक के लिये सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त पद रक्षा विभाग में नियमित Pay Level 13 of pay matrix as per 7th CPC (Pay Band-4 Rs. 37,400-67,000& Grade Pay of Rs 8700/-) के पदधारकों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा। प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 05 वर्ष होगी।
2. उक्त पद धारक की प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों का निर्धारण पैतृक विभाग द्वारा राज्य सरकार की सहमति से किया जायेगा। Coordinator (Defence Manufacturing) के पद के सापेक्ष वेतन/भत्तों इत्यादि का भुगतान सिडकुल द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा।
3. प्रतिनियुक्ति पर तैनाती/नियुक्ति को बढ़ाये जाने अथवा समाप्त किये जाने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
4. उक्त आदेश वित्त विभाग के आदेश पत्र संख्या-330/XXVII(7)/2020, दिनांक 28.05.2020 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 309 (1)/VII-A-2/2020- 08(सिडकुल)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वित्त नियंत्रक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-2 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर को अधिसूचना को शासकीय अधिसूचना की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

MP.

(उमेश नारायण पाण्डेय)

अपर सचिव।